

चारित्रिक मूल्यों की पुनर्स्थापना

प्रो. (डॉ.) सोहन राज तातेड़,

पूर्व कुलपति सिंघानिया विश्वविद्यालय, राजस्थान

पुनरुत्थान कार्यक्रम चारित्रिक मूल्यों की स्थापना का कार्यक्रम है। भारत देश में सबसे अधिक महत्व चरित्र को दिया गया है। यहां कहा गया है कि यदि धन नष्ट हो जाए तो यह समझना चाहिए की कुछ नष्ट नहीं हुआ। लेकिन यदि चरित्र नष्ट हो गया तो समझिए कि व्यक्ति के जीवन की पूरी पूंजी नष्ट हो गयी। इसलिए ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे चरित्र कलंकित हो। यदि व्यक्ति को चरित्र गिर जाता है तो वह समाज की निगाहों से गिर जाता है। आज बड़े-बड़े धार्मिक लोग जिनके करोड़ों अनुयायी हैं, वे क्यों पूज्य हैं? उनके करोड़ों अनुयायी उनके चरित्र के कारण उनकी पूजा करते हैं। किन्तु कुछ ऐसे भी धार्मिक लोग हैं जिनका चरित्र कलंकित हुआ और आज वे जेल की सलाखों के पीछे जीवन यापन कर रहे हैं। चरित्र ही मनुष्य को ऊंचा उठाता है और चरित्र ही नीचे गिरा देता है। चारित्रिक मूल्यों के उत्थान के लिए मनुष्य को अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन करना चाहिए। सदाचार के पालन के द्वारा चारित्रिक मूल्यों की स्थापना होती है। ईमानदारी, मैत्री, करुणा, परोपकार आदि चारित्रिक मूल्य हैं। समाज में जन जागरण के द्वारा जो मूल्य गिर रहे हैं उनकी पुनर्स्थापना होनी चाहिए। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सभी दृष्टियों से गिरावट आ रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि व्यक्ति स्वार्थी हो गया है। स्वार्थ की प्रवृत्ति के कारण बुराईयां बढ़ रही है।

मनुष्य के व्यक्तित्व का अंकन अनेक गुणों के आधार पर होता है। उसमें व्यक्तित्व भी एक महत्वपूर्ण गुण है। व्यक्तित्व आधुनिक मनोवैज्ञानिकों का बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रमुख विषय है। सामान्यतः व्यक्तित्व से अभिप्राय व्यक्ति के रूप, रंग, कद, लम्बाई चौड़ाई, मोटाई अर्थात् शारीरिक संरचना तथा उसके व्यवहार से लगाया जाता है। व्यक्तित्व के संबंध में अनेक धारणाएं हैं। बोलचाल की भाषा में व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग शारीरिक बनावट और सौन्दर्य से लिया जाता है। शारीरिक सुन्दरता के आधार पर प्रायः कहा जाता है कि इस मनुष्य का व्यक्तित्व सुन्दर, आकर्षक और प्रभावशाली है। अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने के लिए

व्यक्ति विविध उपाय करता है। किन्तु उसके अधिकांश प्रयास बाह्य व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने के लिए होते हैं। आन्तरिक व्यक्तित्व के अभाव में बाह्य व्यक्तित्व बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हो पाता। अतः आवश्यक है बाह्य व्यक्तित्व के साथ-साथ आन्तरिक व्यक्तित्व पर भी ध्यान दिया जाये। आन्तरिक व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया हैं- योग। योग आत्म-साक्षात्कार की प्रक्रिया है, किन्तु आज योग को दैनिक जीवन में समाविष्ट करने का प्रयत्न किया जा रहा है, जिससे व्यक्ति तनावमुक्त, व्याधिमुक्त, कष्टमुक्त, स्वस्थ, संतुष्ट और श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण कर सके। किसी व्यक्ति विशेष को जानने के लिए उसके व्यक्तित्व कि समग्रता जाननी जरूरी है। कोई दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। जीवन का प्रारंभ माता के डिम्ब और पिता के शुक्राणु के संयोग से होता है। व्यक्ति के आनुवंशिक गुणों का निश्चय क्रोमोसोम द्वारा होता है। क्रोमोसोम अनेक जींस का समुच्चय है। ये जींस ही माता-पिता के आनुवंशिक गुणों के संवाहक है। इन्हीं में व्यक्ति की शारीरिक व मानसिक क्षमताएं संनिहित होती है। ऐसी कोई भी क्षमता प्रकट नहीं हो सकती है जो जींस में ना हो। व्यक्तित्व को जानने और अच्छा बनाने की रुचि हजारों वर्षों से जनमानस में रही है। व्यक्तित्व अंग्रेजी के पर्सनलिटी शब्द का रूपान्तर है। आज 'पर्सनलिटी' शब्द बहुत प्रचलित है। यह आज के युवा मानस का प्रिय शब्द है। प्रत्येक युवक चाहता है कि उसकी पर्सनलिटी अच्छी बने, आकर्षक बने। यह आज की युवा पीढ़ी की चिन्ता है। पर्सनलिटी का सामान्यतया अर्थ लिया जाता है-व्यक्तित्व का बाह्य रूप। व्यक्ति की वेश-भूषा, शारीरिक गठन व बाह्य सौन्दर्य आदि। यह बाह्य रूप व्यक्तित्व का अंशमात्र है। सर्वांगीण व्यक्तित्व तब निखरता है जब उसके सारे आंतरिक आयाम और बाह्य पक्ष उज्ज्वल बनते हैं, उनमें निरन्तर निखार आता है और सभी पक्षों का संतुलित विकास होता है। व्यक्तित्व के स्वरूप पर आनुवंशिक कारकों का प्रभाव पड़ता है अतः गर्भकालीन परिस्थितियों को जन्म के बाद प्राप्त होने वाली व्यक्तित्व संरचना की नींव के रूप में माना जाता है। ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि गर्भकालीन दशा में मां की संवेगात्मक दशाओं जैसे-चिन्ता, भय, आवेश आदि का प्रभाव जन्मोपरान्त बच्चे पर परिलक्षित होने लगता है। मां की आयु का भी बच्चों के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। व्यक्तित्व विकास की समग्र प्रक्रिया योग है। योग का प्रारम्भ शरीर शुद्धि से होता है और इसके निरन्तर अभ्यास से मनशुद्धि, भावशुद्धि तथा

आत्मशुद्धि की प्राप्ति होती है। व्यक्तित्व के प्रमुख घटकों में सहनशीलता, त्याग की भावना, प्रामाणिकता, ईमानदारी, वर्तमान में जीना, नेतृत्व का गुण आदि प्रमुख घटक हैं। सहनशीलता एक प्रमुख गुण है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में, निन्दा और प्रशंसा में समान रहना सहनशीलता है। त्याग की भावना व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण गुण है। आज अधिकतर व्यक्ति बिना मंजिल के जीवन यात्रा कर रहे हैं। जीवन जोकरों का खेल नहीं है जिसे मनुष्य मौन होकर भाग्य भरोसे कुछ होते हुए देखता रहे। जीवन को सार्थक बनाने के लिए सतत पुरुषार्थ और सद्गुणों का विकास आवश्यक है।